



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 चैत्र 1940 (श10)

(सं० पटना 284) पटना, बुधवार, 28 मार्च 2018

परिवहन विभाग

अधिसूचना

28 मार्च 2018

सं० 2156—राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्या 59) की धारा 135 (1), 138 (2) (झ) एवं 212 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने बिहार सड़क सुरक्षा निधि नियमावली, 2017 का अधिसूचना प्रारूप परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या—1883 दिनांक 19.04.2017 द्वारा बिहार के राजपत्र असाधारण अंक 298 में दिनांक 20.04.2017 से, उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से उस तारीख से, उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली गजट की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थी, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया।

चूंकि उक्त गजट अधिसूचना की प्रतियाँ जनसाधारण को 20 अप्रैल, 2017 को उपलब्ध करवाई गई थीं; और चूंकि उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में सड़क सुरक्षा पर माननीय उच्चतम न्यायालय की कमेटी से प्राप्त कुछ सुझावों एवं परिवहन विभाग द्वारा कुछ नये प्रावधानों को उक्त पूर्व प्रकाशित प्रारूप में जोड़ा गया है।

विधि विभाग के द्वारा दिए गए परामर्श के आलोक में, और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 135, 212 और धारा 215 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा बिहार सड़क सुरक्षा निधि नियमावली, 2018 बनाना चाहती है जिसका प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन उससे प्रभावित होनेवाले सभी व्यक्ति की जानकारी के लिए पुनः प्रकाशित किया जाता है। तथा इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि बिहार राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह दिनों की समाप्ति के बाद नियमावली प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

उक्त नियमावली प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आपत्ति एवं सुझाव, यदि कोई हो, सचिव, परिवहन विभाग, बिहार सरकार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना-800015 को भेजा जा सकता है।

बिहार सड़क सुरक्षा निधि नियमावली, 2018 प्रारूप

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।—(1) यह नियमावली बिहार सड़क सुरक्षा निधि नियमावली, 2018 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ। — जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में —

- (क) “उपकर” से अभिप्रेत है बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 के अधीन उद्गृहीत उपकर;
- (ख) “अध्यक्ष” से अभिप्रेत है बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् नियमावली, 2018 में यथापरिभाषित अध्यक्ष;
- (ग) “शमन फीस” “(समझौता फीस)” से अभिप्रेत है मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 200 के अधीन संगृहीत फीस;
- (घ) “परिषद्” से अभिप्रेत है मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 215 के अधीन गठित राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्;
- (ङ) “कार्यपालक समिति” से अभिप्रेत है बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् नियमावली, 2018 में यथापरिभाषित कार्यपालक समिति;
- (च) “जुर्माना” से अभिप्रेत है, बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994, (समय—समय पर यथा संशोधित) के अधीन अधिरोपित जुर्माना;
- (छ) “निधि” से अभिप्रेत है, बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994, (समय—समय पर यथा संशोधित) के अधीन गठित बिहार सड़क सुरक्षा निधि;
- (ज) “लीड एजेन्सी” से अभिप्रेत है बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् नियमावली, 2018 में यथापरिभाषित लीड एजेन्सी;
- (झ) “वर्ष” से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष;
- (ञ) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के अर्थ क्रमशः वही होंगे, जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्या, 59), केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989, बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 और बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 एवं इसके अधीन निर्मित नियमावली में क्रमशः उनके प्रति समनुदेशित किए गए हो।

3. बिहार सड़क सुरक्षा निधि की स्थापना एवं प्रबंधन। —

- (क) यह निधि बिहार सड़क सुरक्षा निधि के नाम से जानी जाएगी;
- (ख) यह निधि अव्यपगत होगी;
- (ग) निधि बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् में निहित और प्रशासित होगी;
- (घ) परिषद् में निहित निधि इस प्रकार से प्रशासित होगी जैसा विहित की जाय;
- (ङ) बिहार मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 6क और 6ख के अधीन संग्रहित राशि निधि में जमा की जाएगी;
- (च) निधि को प्राप्त होने वाली सभी राशियाँ प्राप्ति बजट शीर्ष में जमा की जायेगी।
- (छ) सभी राशियाँ जो निधि के हिस्से के हैं उसी बैंक में जमा की जाएगी जहाँ इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत अन्य करों की प्राप्ति जमा की जाती हैं अथवा ऐसे अन्य बैंक में जमा की जायेंगी जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय;
- (ज) यह खाता, संयुक्त रूप से परिषद् के सचिव—सह—परिवहन विभाग के प्रधान सचिव/सचिव और राज्य परिवहन आयुक्त के द्वारा प्रचालित किया जाएगा;
- (झ) निधि के निमित्त परिषद् के सचिव निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे;
- (ञ) परिषद्, जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं पणधारी विभागों को, बिहार सड़क सुरक्षा निधि के किसी अंश को योजनाओं एवं कार्यालय एवं आकस्मिक व्यय हेतु उप-आवंटित कर सकेगी।

4. जिला सड़क सुरक्षा निधि की स्थापना एवं प्रबंधन। —

- (क) सभी राशियाँ जो निधि के हिस्से के हैं उसी बैंक में जमा की जाएगी जहाँ इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत अन्य करों की प्राप्ति जमा की जाती हैं अथवा ऐसे अन्य बैंक में जमा की जायेंगी जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;
- (ख) यह खाता, संयुक्त रूप से अध्यक्ष (जिला कलेक्टर) एवं सदस्य सचिव, जिला सड़क सुरक्षा समिति के द्वारा प्रचालित की जायेगी;
- (ग) इस निधि का उपयोग बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृत योजनाओं के लिए की जाएगी;
- (घ) जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य सचिव निधि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

5. योजनाओं के वर्गीकरण, उपस्थापन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया।—

- (क) वित्तीय सहायता हेतु योजनाएँ प्राक्कलित राशि के साथ संबंधित विभाग के लीड एजेन्सी के समन्वय समिति या जिला सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से परिषद् के सचिव को भेजा जाएगा;
- (ख) इस प्रकार प्राक्कलन के साथ प्राप्त सभी योजनाएँ उचित व्यवस्थापन एवं प्राथमिकता तय करने के लिए लीड एजेन्सी द्वारा संग्रहित की जाएगी;

- (ग) लीड एजेन्सी द्वारा योजनाओं की सूची की चार वर्गों में छाटाई की जाएगी—
- रुपये 25 लाख तक की राशि के प्राक्कलनों;
 - रुपये 25 लाख से उपर एवं 5 करोड़ तक की राशि के प्राक्कलनों;
 - रुपये 5 करोड़ से उपर एवं 10 करोड़ तक की राशि के प्राक्कलनों;
 - रुपये 10 करोड़ से उपर के प्राक्कलनों;
- (घ) उपनियम (ग)(i) के अधीन वर्गीकृत, योजनाओं की सूची को, लीड एजेन्सी द्वारा कार्यपालक समिति के सचिव के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा जाएगा। वैसे सभी स्वीकृत योजनाओं की सूची सभी संबंधित को भेजी जाएगी;
- (ङ) उपनियम (ग)(ii) के अधीन वर्गीकृत, योजनाओं की सूची को, लीड एजेन्सी द्वारा स्वीकृति हेतु परिषद् के सचिव के समक्ष रखा जाएगा। वैसे सभी स्वीकृत योजनाओं की सूची सभी संबंधित को भेजी जाएगी;
- (च) उपनियम (ग)(iii) के अधीन वर्गीकृत, योजनाओं की सूची को, लीड एजेन्सी द्वारा राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् के कार्यपालक समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष स्वीकृति हेतु, परिषद् के सचिव-सह-प्रधान सचिव/सचिव के माध्यम से रखा जाएगा। वैसे सभी स्वीकृत योजनाओं की सूची सभी संबंधित को भेजी जाएगी;
- (छ) उपनियम (ग)(iv) के अधीन वर्गीकृत, योजनाओं की सूची को, लीड एजेन्सी द्वारा परिषद् के अध्यक्ष के समक्ष स्वीकृति हेतु, परिषद् के सचिव-सह प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन एवं कार्यपालक समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के माध्यम से रखा जाएगा। वैसे सभी स्वीकृत योजनाओं की सूची सभी संबंधित को भेजी जाएगी;
- (ज) उपरोक्त नियम 5 के उपनियम (घ), (ङ), (च) एवं (छ) के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लीड एजेन्सी सभी स्वीकृत योजनाओं को अधिसूचित करते हुए संबंधित पणधारी विभागों/जिला सड़क सुरक्षा समिति को निधि उपलब्ध कराएगी;
- (झ) लीड एजेन्सी इस प्रकार के सभी योजनाओं की सूची एवं प्रगति प्रतिवेदन बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत करेगी;
- (ञ) सभी पणाधारी (स्टेकहोल्डर) विभाग तत्काल कार्य आरंभ करेंगे और लीड एजेन्सी को नियत समय-सीमा के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र और पूर्णता प्रतिवेदन भेजेंगे। लीड एजेन्सी प्रत्येक प्रतिवेदन को कार्यपालक समिति के समक्ष रखेंगे;

6. निधि का उपयोगिता।— निधि सभी अथवा इनमें से किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लायी

जाएगी:—

- सड़क सुरक्षा कार्यक्रम;
- सड़क सुरक्षा हेतु आधारभूत संरचना का विकास;
- वाहन ड्राइविंग स्कूलों/मोटर वाहन प्रशिक्षण संस्थानों/निरीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्रों का उन्नयन;
- वाहन चालन जाँच केन्द्रों का विकास;
- सड़क सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और जागरूकता कार्यक्रम ;
- सड़क सुरक्षा से जुड़े उपकरणों की खरीद;
- सड़क सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं पर अनुमोदित अध्ययन और शोध;
- शैक्षणिक समुदायों की सेवा प्राप्त करने, विशेषज्ञों, चिन्तकों, अनुभवी पेशेवरों इत्यादि के लिए निधि उपलब्ध कराना;
- सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मियों हेतु विशेष भत्तो को उपलब्ध कराना;
- सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अनुभव यात्रा का निधिकरण;
- अभिघात देखभाल एवं उससे संबंधित क्रियाकलाप;
- सड़क किनारे स्थित अभिघात देखभाल केन्द्रों का विकास एवं उन्नयन;
- स्वर्णिम घंटा की अवधि में सड़क दुर्घटना से पीड़ितों के सहायतार्थ त्वरित प्रतिक्रिया दलों का गठन आदि;
- ब्लैक स्पॉट का सुधार;
- अनुबंध और अस्थायी कर्मियों के परिलब्धियों का भुगतान;
- सड़क सुरक्षा से जुड़े विषयों पर ऐसे अन्य व्यय जो राज्य सरकार और राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् उचित समझे;
- वैसे सभी आकस्मिक एवं प्रशासनिक व्यय जो सड़क सुरक्षा से संबंधित हो;
- सरकार अथवा परिषद् द्वारा सड़क सुरक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य कोई मामलें।

7. पणधारी (स्टेकहोल्डर) विभागों की भूमिका और उत्तरदायित्व।— ऐसे पणधारी विभाग, जो सड़क सुरक्षा निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं, स्वीकृत स्कीमों के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए बिहार सरकार द्वारा प्रचलित प्रावधानों के अनुसार उत्तरदायी होंगे।

8. लेखे।— निधि के लेखे लीड एजेन्सी द्वारा कार्यपालक समिति के सचिव के माध्यम से ऐसी रीति से संधारित किए जायेंगे जो विहित की जाय।

9. लेखापरीक्षा।—

- (1) बिहार सड़क सुरक्षा निधि और जिला सड़क सुरक्षा निधि के आय-व्यय का लेखा समुचित रूप से लीड एजेन्सी द्वारा राज्य स्तर पर एवं सदस्य सचिव, जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा जिला स्तर पर संधारित किया जाएगा। बिहार वित्त नियमावली के अनुसार महालेखापरीक्षक और वित्त विभाग द्वारा नियमित रूप से लेखा की लेखापरीक्षा की जाएगी;
- (2) आन्तरिक एवं सन्निपत्तन (सहमति) अंकेक्षण प्रणाली की व्यवस्था आवश्यकता अनुरूप लीड एजेन्सी करेगी।

10. आस्तियाँ।— निधि द्वारा सृजित सभी आस्तियाँ परिषद् की संपत्ति होगी।

11. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन।— कोई भी सिविल न्यायालय इस नियमावली के अधीन सरकार या परिषद् या लीड एजेन्सी द्वारा लिए गए निर्णयों से संबंधित कोई भी वाद ग्रहण नहीं कर सकेगा।

12. प्रकीर्ण खंड।— परिषद्, कार्यपालक समिति की सहायता से कोई अन्य कदम उठाने अथवा कोई तंत्र विकसित करने, जो वह उचित समझे, के लिए सक्षम होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन उद्देश्यों के लिए सड़क सुरक्षा निधि स्थापित की गयी है, वे पूरा हो चुके हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

The 28th March 2018

No. 2156— In exercise of the powers conferred by Section 135, 212 and Section 215 of the Motor Vehicles Act, 1988, (Act No 59 of 1988), the Government of Bihar has published the draft Bihar Road Safety Fund Rules, 2017 vide notification no-1883 dated 19-04-2017 of the Transport Department through G.S.R. No-298 dated 20th April, 2017 inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected by it before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the general public;

Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the general public on 20th April, 2017; and

Whereas, some suggestions received from the Committee of the Supreme Court on Road Safety and some amendment have been made by the Transport Department in respect of the said Draft Rules in the previously published draft; and

Where in view of the suggestion made by the Law Department and in exercise of the powers conferred by section 135, 212 and section 215 of the Motor Vehicle Acts, 1988, (Act No 59, 1988), the State Government hereby desire to make the Bihar Road Safety Fund Rules, 2018 draft of which is republished under subsection (1) of section 212 of the said Act for information to all the persons likely to be affected thereby and a notice is hereby given that the said Draft Rules will be considered after the expiry of 15 days from the date on which these are published in the Bihar official Gazette.

Objections and/or suggestions with respect to the said Draft Rules, received from any person before the expiry of the aforesaid period, shall be considered by the State Government.

Objections and/or suggestions, if any, may be sent to the Secretary, Transport Department, Vishweshwaraiya Bhawan, Baily Road, Patna-800015.

Bihar Road Safety Fund Rules, 2018 Draft

1. Short title, extent and commencement.— (1) These Rules may be called The Bihar Road Safety Fund Rules, 2018.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless otherwise requires in the context -

(a) “Cess” means the cess levied under Bihar Motor Vehicles Taxation Act, 1994;

(b) “Chairman” means Chairman as defined in The Bihar Road Safety Council Rules, 2018;

- (c) “*Compounding Fee*” means the fee collected under section 200 of the Motor Vehicles Act, 1988;
- (d) “*Council*” means ‘The State Road Safety Council’ constituted under Section 215 of the Motor Vehicles Act, 1988;
- (e) “*Executive Committee*” means Executive Committee as defined in Bihar Road Safety Council Rules, 2018;
- (f) “*Fine*” means fine imposed under Bihar Motor Vehicles Taxation Act, 1994 (as amended from time to time);
- (g) “*Fund*” means the Bihar Road Safety Fund constituted under the Bihar Motor Vehicles Taxation Act, 1994, (as amended from time to time);
- (h) “*Lead Agency*” means Lead Agency as defined in Bihar Road Safety Council Rules, 2018;
- (i) “*Year*” means the Financial Year;
- (j) Words and expressions used, but not defined in these rules, shall have the meanings respectively assigned to them in the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988), the Central Motor Vehicle Rules 1989, the Bihar Motor Vehicles Rules, 1992 and the Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994, and the rules made there under and Bihar Road Safety Council Rules, 2018 etc.

3. Establishment and Management of Bihar Road Safety Fund.-

- (a) There shall be a Fund to be called as “Bihar Road Safety Fund”.
- (b) This Fund shall be non-lapsable.
- (c) This fund shall vest in and be administered by the Bihar Road Safety Council.
- (d) The Council, the Executive Committee, Principal Secretary/ Secretary Transport Department and Member Secretary of the Council with the help of Lead Agency shall be responsible for the proper management of the Fund.
- (e) The amount appropriated under Section 6A and 6B of Bihar Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2016 shall be credited to the Fund.
- (f) All amounts to be credited to the fund shall be deposited in the receipt Budget-Head.
- (g) An account for the fund shall be opened in the same bank as the receipt of other taxes levied under this Act or in such other bank as the State Government may, by notification, specify.
- (h) This account shall be operated by the joint signatures of Principal Secretary/Secretary of the Transport Department and the State Transport Commissioner.
- (i) The Member Secretary of the Council shall be the Drawing and Disbursing Officer for the purpose of the Fund.
- (j) The Council may sub-allot a part of the Bihar Road Safety Fund to the District Road Safety Committees and Stakeholder Departments for scheme and contingent office expenditures.

4. Establishment and Management of District Road Safety Fund.-

- (a) An account for the District Road Safety Fund shall be opened in the same bank as the receipt of other taxes levied under this Act or in such other bank as the State Government may, by notification, specify.
- (b) This account shall be operated by the joint signatures of the Chairman (Collector of the District) and Member Secretary of the District Road Safety Committee.
- (c) This fund shall be utilised for the schemes sanctioned by the Bihar Road Safety Council.
- (d) The Member Secretary of the District Road Safety Committee shall be the Drawing and Disbursing Officer of the Fund.

5. Procedure for categorisation, submission and sanction of the schemes:-

- (a) Request for financial assistance along with the estimates of the schemes shall be sent by the concerned departments through the designated Co-ordination Committees of the Lead Agencies or the District Road Safety Committee to the Secretary of the Council.
- (b) All such estimates of the schemes received so, shall be collected by the Lead Agency for proper arrangement and prioritisation.
- (c) The Lead Agency shall scrutinise the list of the schemes into four categories-
 - (i) Estimates amounting to Rupees 25 lacs.
 - (ii) Estimates amounting above Rupees 25 lacs to 5 Crores.
 - (iii) Estimates amounting above Rupees 5 Crores to 10 Crores.
 - (iv) Estimates amounting above Rupees 10 Crores.
- (d) The Lead Agency shall place the list of schemes falling under category (c)(i), as mentioned above, before the Executive Committee for its sanction. The list of such sanctioned schemes shall be sent to all concern for information.
- (e) The Lead Agency shall place the list of schemes falling under category (c)(ii), as mentioned above, before the Principal Secretary/Secretary of the Transport Department for its sanction. The list of such sanctioned schemes shall be sent to all concern for information.
- (f) The Lead Agency shall place the list of schemes falling under category (c)(iii), as mentioned above, before the Chief Executive Officer of the Executive Committee of the Council, for its sanction through the Secretary of the Council cum the Principal Secretary/Secretary of the Transport Department. The list of such sanctioned schemes shall be sent to all concern for information.
- (g) The Lead Agency shall place the list of schemes falling under category (c)(iv), as mentioned above, before the Chairman of the Council for its sanction through the Secretary of the Council, cum the Principal Secretary/Secretary of the Transport Department and the Chief Executive Officer of the Executive Committee of the Council. The list of such sanctioned schemes shall be sent to all concern for information.
- (h) For the implementation of schemes sanctioned under sub rule (d), (e), (f) and (g) of rule 5 the Lead Agency shall notify all the schemes and disburse the fund to the concerned stake holder departments/District Road Safety Committee.
- (i) The Lead Agency shall place the list and progress report of all such sanctioned schemes in the forthcoming meeting of the Bihar Road Safety Council.
- (j) All stakeholder departments shall start the work immediately and send utilisation certificate and completion report within the stipulated time to the Lead Agency. The Lead Agency shall place such report before the Executive Committee.

6. Utilisation of the Fund.—

(1) The Fund shall be utilized for all or any of the following purposes:-

- (a) Road safety programmes;
- (b) Infrastructure development for Road Safety;
- (c) Development of Driving Schools/Driving Training Institutes/Inspection and Certification centres;
- (d) Development of Driving Testing Stations;
- (e) Awareness programmes and information and communication technology (ICT) in respect of road safety;
- (f) Purchases of instruments connected with road safety;
- (g) Studies and research on approved projects regarding road safety;
- (h) Providing fund for availing the services of educational community, experts, thinkers, experience professionals etc;
- (i) Providing special allowances to government officers and staff working under Lead Agency;
- (j) Funding of training programmes and exposure visits regarding road safety;

- (k) Trauma Care Programmes and related activities;
- (l) Development/ up gradation of road side trauma care facilities;
- (m) Formation of Quick Response Teams for helping the road accidents victims in the Golden Hour;
- (n) Rectification of black spots;
- (o) Salary and allowances of the contractual staffs and ad-hoc employees;
- (p) Such other expenditure incidental to road safety as the State Government and the State Road Safety Council may deem fit;
- (q) All expenses of contingent and administrative nature related to Road Safety;
- (r) Any other purposes for the furtherance of Road Safety as may be decided by the Government and Council;

7. Role and Responsibilities of stakeholders Departments.—Such stakeholders departments who receive financial aid from Road Safety Fund shall be responsible for the execution and supervision of the sanctioned schemes, as per the prevalent provisions prescribed by the Government of Bihar.

8. Accounts.—The accounts of the fund shall be maintained by the Lead Agency through the Member Secretary of the executive committee in such manner, as may be prescribed.

9. Audit.—The accounts of income- expenditure of the Bihar Road Safety Fund shall be properly maintained by the Lead Agency at State Level and the Member Secretary of the District Road Safety Committee at the District Level. The Fund shall be audited regularly by Accountant General and Finance Department as per the provisions prescribed by the Government of Bihar.

(2) The Lead Agency can make provisions for, internal and concurrent audit system, as per requirement.

10. Assets.— All the assets created by the fund shall be the property of the Council.

11. Bar of jurisdiction of Civil Courts.—No civil court shall have jurisdiction to settle, decide or deal with any question or to determine any matter which is by or under these rules required to be settled, decided or dealt with or to be determined by the Government or the Council or the Lead Agency.

12. Miscellaneous Clause.—The Council, with the assistance of the Executive Committee, shall have the power to take any steps or develop any mechanism, which it deems fit, to ensure that the objectives for which the Road Safety Fund has been set up, are achieved.

By order of The Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR AGARWAL,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 284-571+100-डी0टी0पी0।
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>